



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 210 राँची, शुक्रवार,

9 मार्च, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

9 मार्च, 2017 ई०

संख्या-05/NSA/01/05/2014 (खण्ड-I)1179-- चूँकी झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **गिरिडीह** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (संख्या-65/1980) की धारा 3 की उपधारा (03) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **गिरिडीह** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 03 की उपधारा (02) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।